



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन 1946 (श0)  
(सं0 पटना 167) पटना, बुधवार, 5 मार्च 2025

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी 2025

सं० 7 / स्था०-04-30 / 2023सा०प्र० 663—महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय के पत्रांक-97840 दिनांक 20.12.2024 एवं पत्रांक-98261 दिनांक 20.12.2024 की अनुशंसा में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-10432/23 सलेहा सबीहा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 26.07.2023 एवं 25.01.2024 को पारित आदेश एवं उक्त के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी०(सी)सं०-7667/2024 एवं आर०पी० सं०-1633/2024 में क्रमशः दिनांक 10.07.2024 एवं 19.09.2024 को पारित आदेश के आलोक में जिला न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) बार से सीधी भर्ती परीक्षा, 2021 के आधार पर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत अंतिम चयनित उम्मीदवार के बाद मेधाक्रम में अगले आने वाले अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के निम्नांकित अभ्यर्थी को अधिवक्ता वर्ग से सीधे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु) के पद पर वेतनमान ₹ 144840-194660 में, समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:-

क्र०स०	अनुक्रमांक	न्यायिक पदाधिकारी का नाम/ वर्तमान पता	जन्मतिथि
1	2	3	4
1	11755	श्री कमल कुमार, फ्लैट नं०-602, श्रेयस गार्डन अपार्टमेंट, अभियंता नगर, बेली रोड, दानापुर जिला-पटना, बिहार, पिन-801503	15.02.1982

2. उक्त पद पर अनुशासित अभ्यर्थी की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाएगी:-

- (i) यदि इनके पूर्ववत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है अथवा प्रमाण पत्र/अभिलेखों के जाँच के क्रम में सूचना गलत पायी जायेगी, तो इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
- (ii) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त कर्मी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- (iii) अभ्यर्थी के शैक्षणिक, उम्र, अनुभव, आवासीय एवं स्वच्छ चरित्र संबंधी सभी तरह के मूल प्रमाण पत्रों की विधिवत रूप से जाँच एवं सत्यापन का कार्य संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर पर किये जायेंगे तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (iv) योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता या सुविधा देय नहीं होगी।
- (v) संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभ्यर्थी के सिविल सर्जन के स्तर पर गठित चिकित्सक पर्वद से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं शादी/विवाह में तिलक/दहेज आदि नहीं लेने/देने की घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गुफ़रान अहमद,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।  
बिहार गजट (असाधारण) 167-571+10-डी0टी0पी0 ।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>